



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-06-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-06-01 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-06-02	2021-06-03	2021-06-04	2021-06-05	2021-06-06
वर्षा (मिमी)	25.0	15.0	12.0	5.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	22.0	22.0	23.0	24.0	24.0
न्यूनतम तापमान(से.)	10.0	12.0	13.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	85	80	75	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	45	40	40	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8.4	8.6	8.6	9.4	9.8
पवन दिशा (डिग्री)	70	130	130	50	310
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	5	3	4	4

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा की सम्भावना है। हवा के 8.0-10.0 किमी/घंटे की गति से उत्तर-पूर्व व दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 22.0 से 24.0 व 10.0 से 13.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेतावनी: 1 से 3 जून को, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने व 1 जून को तीव्र बौछार होने की भी सम्भावना है। ईआरएफएस के अनुसार, 6 से 12 जून के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम, अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।

### सामान्य सलाहकार:

कोरोना (कोविड-19) की दूसरी लहर व इसके गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि तैयार फसलों की कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अन्तराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखने पर

विशेष ध्यान दें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल जिले के लिए एनडीवीआई 0.15-0.35 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम है तथा एसपीआई मानचित्र पिछले 4 हफ्तों से नैनीताल जिले में अत्यधिक नमी की स्थिति दर्शाता है।

#### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा की सम्भावना है। चेटावनी: 1 से 3 जून को, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने व 1 जून को तीव्र बौछार होने की भी सम्भावना है।

#### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
चावल	जिले के मैदानी क्षेत्रों में मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर धान की नर्सरी डालने का कार्य पूर्ण करें।
सोयाबीन	सोयाबीन की बुवाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।

#### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	वर्षा की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, खुदाई किये हुए आलूओं को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें व बाजार में बिक्री करें।

#### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	बढ़ती हुई बछियों के उचित बढ़वार हेतु उन्हें प्रतिदिन लगभग 20-25 ग्राम नमक अवश्य दें।